

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245111  
SG-DL-E-11042023-245111असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 10
No. 122]	DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945	[N. C. T. D. No. 10

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

फा. सं. 8(2)/2015/एल एंड बी/एलए/168.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2740(अ) एवं दिनांक 21 जुलाई 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2004 (अ) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सराय काले खाँ से आरंभ होकर मयूर विहार तक बारापूला नाला पर एलिवेटेड सड़क के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि खसरा नं. 221/2/1 (459.192 वर्ग मीटर) तथा 221/2/3 (709.901 वर्ग मीटर) का 1169.093 वर्ग मीटर है जिसे ग्राम नंगली रजापुर में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखता है। मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 को दिनांक 11.04.2023 की अधिसूचना फा. सं. 8(2)/2015/एल एंड बी/एलए/155 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आंकलन के मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन-सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना हेतु समयावधि इस

अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण-पूर्व), नई दिल्ली-110024 के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना-पत्र एवं जन-सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
अजय कुमार गम्भीर, उप सचिव

## LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(LAND ACQUISITION BRANCH)

### NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2023

**F. No. 8(2)/2015/L&B/LA/168.**—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) and (2) of Section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with Sub-Rule (1) of Rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 2740(E) dated 21<sup>st</sup> October 2014, and S.O. 2004(E) dated 21<sup>st</sup> July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire land for public purpose for construction of elevated road over Barapullah Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar. The land to be acquired for this purpose is 1169.093 square meter of khasra number 221/2/1(459.192 square meter) and 221/2/3 (709.901 square meter) which the Public Works Department, Government of National Capital Territory of Delhi intends to acquire land in village Nangli Razapur. The School of Human Ecology, Ambedkar University, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi – 110006 has been assigned as Social Impact Assessment Unit to carry out social impact assessment study in relation to aforesaid land vide Notification No. 8(2)/2015/L&B/LA/155 dated 11.04.2023.

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and public, survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan will be six months from date of publication of this notification in the official gazette and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in affected areas, and in the office of District Collector (South East), New Delhi 110024.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,  
National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GAMBHIR, Dy. Secy.